

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1979/आषाढ़ 22, 1901
No. 286] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1979/ASADHA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1979

का०आ० 399(अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम
(2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचना के लिए किया जाता है:—

प्ररूप 7-ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

श्री प्रणव चटर्जी की मृत्यु के परिणामस्वरूप बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित

सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचित

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1	कमल नाथ चौधरी	म्यूजियम रोड, जी०पी०ओ० पटना-1
2	भोला प्रसाद	1 बेर्ली रोड, पटना-800001
3	लक्ष्मी नारायण सिंह	सुजान हाउस, वॉरिंग केनाल रोड, पटना।
4	सत्यदेव सिंह	कतरासगढ़, धनबाद।
5	सैयद शहाबुद्दीन	रोड नं०-6 बी, राजेन्द्र नगर, पटना-16
स्थान :	बिहार विधान सभा भवन	ह०/- जितेन्द्र नारायण सिंह, रिटनिंग प्राफिसर
तारीख :	7 जुलाई, 1979	[सं० 100/रा०स०-बिहार/2/79] बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, 13th July, 1979

S. O. 399 (E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information: —

FORM 7-B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

By-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar, due to the death of Shri Pranab Chatterjee

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Kamal N. Choudhary	Museum Road, G.P.O., Patna-1.
2.	Bhola Prasad	1 Bailey Road, Patna-800001.
3.	Lakshmi Narain Sinha	Sujan House, Voring Canal Road, Patna-1.
4.	Satyadev Singh	Katrasagarh, Dhanbad.
5.	Syed Shahabuddin	Road No. 6-B, Rajender Nagar, Patna- 16.
Place : Bihar Vidhan Sabha Bhawan.		Sd./ Jitendra Narayan Singh, Returning Officer.
Dated : 7th July, 1979.		

By Order,

[No. 100/CS-BR/2/79]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.